

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2712]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2013/अग्रहायण 14, 1935

No. 2712]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2013/AGRAHAYANA 14, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3584(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राजस्थान राज्य में मेहसाना से भटिण्डा (चित्तौड़गढ़-उदयपुर सेक्शन) तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार तलवार, सक्षम प्राधिकारी, मेहसाना-भटिण्डा नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क, जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल), 16, कृष्णा विहार, नारायण निवास के पास, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर (राजस्थान) पिन-302015 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : भूपालसागर		जिला : चित्तौड़गढ़	राज्य : राजस्थान		
क्र. सं.	गाँव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
13	जेतपुरा	189	00	09	00
14	बबराना	476	00	01	00
		478	00	01	05
15	सांवता	566	00	00	57
16	भूपालनगर	1393	00	01	00
		1301	00	00	40
17	आकोला	1945	00	19	10
		1779	00	02	04
		3282	00	01	00
		7562/768	00	05	56
18	चौकड़ी	454	00	00	40
19	चोरवड़ी	1625	00	01	22
	खसरा सं. 1605 और 1544 के बीच में		00	01	76
		1545	00	07	28
		1858/1547	00	00	40
	खसरा सं. 1591 और 1753/1590 के बीच में		00	03	48
20	बाबरियाखेड़ा	850/36	00	00	40
21	निलोद	2480	00	01	00
		2452	00	02	69
		2455	00	01	14
22	जोयड़ा	58	00	02	20

[फा. सं. एल-14014/43/2012-जीपी]

श्रीप्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd December, 2013

S.O. 3584(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from Mehsana to Bhatinda (Chittorgarh-Udaipur Section) a pipeline should be laid in State of Rajasthan by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL);

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Arun Kumar Talwar, Competent Authority, Mehsana-Bhatinda Natural Gas Pipeline Network, GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL), 16 Krishana Vihar, Near Narayan Niwas, Gopalpura Bye-pass road, Jaipur (Rajasthan) Pin – 302015

SCHEDULE**TEHSIL : BHUPALSAGAR****DISTRICT : CHITTORGARH****STATE : RAJASTHAN**

Sr. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
13	JETPURA	189	00	09	00
14	BABARANA	476	00	01	00
		478	00	01	05
15	SANWATA	566	00	00	57
16	BHUPALNAGAR	1393	00	01	00
		1301	00	00	40
17	AKOLA	1945	00	19	10
		1779	00	02	04
		3282	00	01	00
		7562/768	00	05	56
18	CHOUKADI	454	00	00	40
19	CHORWADI	1625	00	01	22
		In Between Survey No. 1605 & 1544	00	01	76
		1545	00	07	28
		1858/1547	00	00	40
		In Between Survey No. 1591 & 1753/1590	00	03	48
20	BABARIYAKHEDA	850/36	00	00	40
21	NILOD	2480	00	01	00
		2452	00	02	69
		2455	00	01	14
22	JOYADA	58	00	02	20

[F. No. L-14014/43/2012-GP]

S. P. AGARWAL, Under Secy.